

Printed from

नवभारत टाइम्स

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

बंद हुई बाईपास रोड पर तोड़फोड़

31 Dec 2010, 0400 hrs IST

एनबीटी न्यूज़ ॥ फरीदाबाद

लगातार दो दिन तक बाईपास रोड पर बनी झुग्गियों पर कहर बरसाने के बाद हूडा का पीला पंजा गुरुवार को शांत हो गया। पुलिस का साथ न मिलने के कारण हूडा तोड़फोड़ दस्ते को अपनी तीसरे दिन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। हूडा अधिकारियों का कहना है कि जब तक पुलिस की सहायता नहीं मिल जाती तब तक दोबारा कार्रवाई नहीं होगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार हूडा तोड़फोड़ दस्ता तीसरे दिन भी 4 जेसीबी मशीनों के साथ सुबह 11 बजे तोड़फोड़ करने पहुंचा। लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को तोड़फोड़ करने पहुंचे दस्ते को एक बार फिर झुग्गी वासियों के विरोध का सामना करना पड़ा और हूडा का पीला पंजा बिना चले ही वापस लौट आया।

बाईपास रोड पर 1200 झुग्गियां हैं जो बाईपास रोड के निर्माण में रुकावट बनी हुई हैं। इनको रास्ते से हटाने के लिए हूडा ने सेक्टर-56ए और सेक्टर-62 में 3080 आशियाना फ्लैट बनाए हैं, जिसके लिए 875 लोगों ने आवेदन किया था और उनमें से 811 परिवारों को हूडा ने वहां शिफ्ट कर दिया है। हूडा अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में उन 811 झुग्गियों को ही तोड़ने का प्रोग्राम है, जिन्हें आशियाना अलॉट कर दिया गया है। मंगलवार को हूडा ने इन झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी और बुधवार शाम तक लगभग 550 झुग्गियों को तोड़ दिया गया था। सभी झुग्गियों को हटाने के लिए हूडा ने तीन दिन का कार्यक्रम बनाया था लेकिन कार्रवाई दो दिन ही चल पाई।

जल्द होगी दोबारा कार्रवाई

हूडा सर्वे एसडीओ अजित सिंह ने बताया कि हमने प्रशासन से तीन दिन के लिए पुलिस मांगी थी, लेकिन गुरुवार को पुलिस नहीं पहुंच पाई और हमें कार्रवाई रोकनी पड़ी। उन्होंने बताया कि हमने दोबारा से प्रशासन को पुलिस व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मुहैया कराने के लिए लिख दिया है। उम्मीद की जा रही है कि एक या दो दिन में ही पुलिस की सहायता मिल जाएगी और हम दोबारा से तोड़फोड़ शुरू कर देंगे।

इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।

इस आर्टिकल को ट्वीट करें।

Recommend

Be the first of your friends to recommend this.

Powered by Indiatimes

[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)Copyright © 2011 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768